

प्रेस नोट दिनांक 07.05.2021

(1). कोरोना महामारी के संक्रमण की रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट के निर्देशन में सीएफओ श्री यतीन्द्रनाथ उमराव के मार्गदर्शन में दिनांक-07.05.2021 को थाना भरतकूप अन्तर्गत ग्राम पहरा की सम्पूर्ण आवासीय बस्ती एवं प्रा0 विद्यालय कार्यालय एवं परिसर पहरा को सेनेटाइज किया गया।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में कोविड-19 से बचाव हेतु चलाये जा रहे जागरूकता एवं चैकिंग अभियान में दिनांक 06.05.2021 को कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों के उल्लंघन पर थाना राजापुर में 10 व्यक्तियों के विरुद्ध तथा थाना कोतवाली कर्वी में 13 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188/269 भादवि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर किया गया। जनपदवासियों से अपील की जाती है कि कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों का पालन करें।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी के मार्गदर्शन में 30नि0 श्री शिवकुमार यादव तथा उनकी टीम द्वारा भरतपुरी कर्वी से अभियुक्त (1) सान मोहम्मद पुत्र महरूम मुन्ना (2) नफीस पुत्र रहीश (3) सानू पुत्र स्व0 मुस्तफा हुसैन (4) हक्कल उर्फ नौशाद पुत्र मो0 उसमान उल्ला निवासीगण भरतपुरी कर्वी कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट (5) सोनाचांदी पुत्र स्व0 रामप्रसाद केशरवानी निवासी लक्षणपुरी कर्वी कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को ताश के पत्तों पर हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के मालफड़ से-5000/- रुपये, जामातलाशी- 1250/- रुपये एवं 52 अदद ताश के पत्ते बरामद किये गये। अभियुक्त (1) बाबू पुत्र चांदनी (2) बदी पुत्र स्व0 रज्जन रैकवार (3) विक्रम पुत्र भगवानदीन जमादार (4) मुन्ना पुत्र अहीर हसन (05) बादल पुत्र स्व0 मइयादीन (06) मो0 सान पुत्र सहनवाज (07) दर्दा पुत्र पूरन साहू (08) वीरेन्द्र पुत्र स्व0 महावीर निवासीगण लक्षणपुरी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट मौके से भाग निकलें। अभियुक्तों के विरुद्ध कोतवाली कर्वी में 13 जुआ अधिनियम व 188/269 भादवि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

1. मालफड़ से-5000/- रुपये
2. जामातलाशी- 1250/- रुपये
3. 52 अदद ताश के पत्ते

बरामदगी/गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. 30नि0 श्री शिवकुमार यादव थाना कोतवाली कर्वी
2. 30नि0 श्री प्रवीण सिंह
3. आरक्षी राजीव बिंद
4. आरक्षी लवलेश
5. आरक्षी सर्वेश मौर्या

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री विनोद कुमार साहू आबकारी निरीक्षक एवं 30नि0 श्री धनन्जय राय थाना भरतकूप की संयुक्त टीम द्वारा भैंसोधा तालाब के पास से अभियुक्त (1) सभापति यादव पुत्र रामकुमार (2) मुलायम पुत्र सभापति निवासीगण भोला का पुरवा मजरा भैंसोधा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 90 अदद अवैध क्वार्टर देशी शराब मोटरसाइकिल हीरो होण्डा स्प्लेण्डर अस्पष्ट रूप से छपे नम्बर से ले जाते समय गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। बरामदशुदा मोटरसाइकिल को एम0वी0 एक्ट के तहत सीज किया गया।

बरामदगी:-

1. 90 क्वार्टर अवैध देशी शराब
2. मोटरसाइकिल हीरो होण्डा स्प्लेण्डर अस्पष्ट रूप से छपे नम्बर

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. निरीक्षक आबकारी श्री विनोद कुमार साहू
2. उ0नि0 श्री धनन्जय राय थाना भरतकूप
3. आरक्षी इकबाल अहमद
4. महिला आरक्षी आबकारी कविता सिंह

(5). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 07.05.2021 को एंटी रोमियो टीम थाना मारकुंडी द्वारा बैंक व भेड़ा ग्राम में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा नीबीं रोड, मण्डौर रोड, ब्लॉक मऊ एवं जनसेवा केन्द्र कस्बा मऊ में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा ग्राम पतेरी, कनियाढ़ व कोनिया में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा चुंगी चौराहा, रामलीला मैदान, उतारखाना कर्वी में भ्रमण कर भ्रमण कर कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत महिलाओं/ बालिकाओं को मास्क लगाने हेतु जागरूक किया तथा बाहर निकलने वाले व्यक्तियों बाहर निकलने का कारण पूछा तथा शासन द्वारा लागू लॉकडाउन का पालन करने हेतु बताया गया। महिला आरक्षियों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया।